

● पढ़ो और समझो :

द. पद

यहाँ दोहों एवं पदों के माध्यम से संतो ने नीतियों एवं अपने आराध्य के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है।



विचार मंथन

॥ संत न छोड़ें संतई ॥

दादू

घीव दूध मैं रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू बकता बहुत हैं, मथिकाढ़ै ते और ॥
सब हम देख्या सोधि करि, दूजा नहीं आन ।
सब घट एकै आत्मा, क्या हिंदू-मुसलमान ॥
×× ××

मीरा

पायो जी, मैंने राम-रतन धन पायो ।
वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, किरपा करि अपनायो ।
जनम-जनम की पूँजी पाई जग में सबै खोवायो ।
खरचै नहिं कोई चोर न लेवै, दिन-दिन बढ़त सवायो ।
सत की नाव खेवटिया सत गुरु, भवसागर तरि आयो ।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखि-हरखि जग गायो ।
×× ××

नानक देव


जो नर दुख में दुख नहिं मानै ।
सुख-सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जानै ॥
नहिं निंदा नहिं स्तुति जाके, लोभ, मोह, अभिमान ।
हरष-सोक तें रहै नियारो, नाहि मान-अपमान ॥
×× ××

- उचित लय-ताल से पद एवं दोहों का पाठ करें। एकल, गुट में सस्वर पाठ कराएँ। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इनमें आए भावों को स्पष्ट करें। कुछ दोहों एवं पदों के भावार्थ लिखने के लिए प्रेरित करें। पाठ में आए देशज शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखवाएँ।



स्वयं अध्ययन

किसी प्राचीन कवि की जानकारी प्राप्त करो :



वृंद

फेर ने ह्वे हैं कपट सों जो कीजै व्यौपार ।
जैसे हाँड़ी काठ की चढ़ै न दूजी बार ॥
भले-बुरें सब एक सों जौं लौ बोलत नाहिं ।
जानि परतु हैं काक पिक-रितु वसंत के माँहि ॥

××

××

रैदास

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । जाकी अंग-अंग बास समानी ॥
प्रभु जी तुम वन घन हम मोरा । जैसे चितवत चंद चकोरा ॥
प्रभु जी तुम माली हम बागा । जैसे सोनहि मिलत सुहागा ॥
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भगति करै रैदासा ॥

××

××

रसखान

धूरि भरे अति सोभित स्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी ।
खेलत खात फिरै अँगना पग पैँजनियाँ कटि पीरी कछोटी ॥
वा छवि को रसखानि विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी ।
काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सौ लै गयो माखन रोटी ॥

××

××

□ कक्षा में 'सस्वर दोहे-प्रस्तुति' प्रतियोगिता का आयोजन करें। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा के अन्य दोहे-पद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को कुछ नीतिपरक दोहों के संकलन करने तथा हाव-भाव से गाने के लिए प्रेरित करें।



मैंने समझा

शब्द वाटिका



नए शब्द

हरष = खुशी

नियारो = अनोखा

सम = बराबर

बास = खुशबू

सोनहि = सोना, स्वर्ण

अमोलक = अमूल्य

सत = सत्य

भवसागर = संसार सागर

तरि = तैर

हरखि = प्रसन्न होकर

जस = यश

विलोकत = देखकर

वारत = न्योछावर

काम = कामदेव

काग = कौआ

हरि = कृष्ण, विष्णु



सुनो तो जरा

किसी एक कहावत के अर्थ का अनुमान लगाते हुए संबंधित आशय सुनाओ ।



बताओ तो सही

तुम्हें पठित पदों में से कौन-सा पद अच्छा लगा और क्यों ? बताओ ।



जरा सोचो चर्चा करो

अगर तुम किसी बाग के बागवान होते तो



वाचन जगत से

किसी बाल उपन्यास का लघु अंश पढ़ो और कक्षा में बताओ ।



अध्ययन कौशल

संकेत स्थल की संरचना ज्ञात करो और अध्ययनपूरक वीडियो क्लिप्स डाउनलोड करो और पढ़ो ।



मेरी कलम से

अपने विद्यालय में मनाए गए संविधान दिवस का वृत्तांत तैयार करो ।



खोजबीन

हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित 'कबीर ग्रंथावली' से दस दोहे ढूँढ़कर अर्थसहित चार्ट पेपर पर लिखो ।

* पाठ के किसी एक पद का सरल अर्थ लिखो ।



सदैव ध्यान में रखो

संत साहित्य समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है ।



भाषा की ओर

वाक्य में रेखांकित शब्दों के शुद्ध रूप बनाकर वाक्य पुनः लिखो :

वह पाठशाला नहीं आया क्युंकि वह बीमार है ।

आज बहोत गर्मी है ।

भारिश के होने से जंगल हरा-भरा हो गया ।

उसने पूछा की क्या साहब अंदर हैं ?

मैं कल मुंबई जाऊंगा ।

राकेश ओर उसका भाई साथ-साथ खेलते हैं ।

वे अपना काम स्वयं करते है ।

मय अपनी पढ़ाई पूरी करके खेलने जाती हूँ ।

किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए ।

उसके पास साइकिल है इसलिये वह जल्दी आता है ।
